



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1981/चैत्र 7, 1903
No. 138] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1981/CHAITRA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1981

का. आ. 237(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर 28 मार्च, 1981 से बिहार राज्य में सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि बिहार राज्य के सारण जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-3/81-आर. आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)
NOTIFICATIONS
New Delhi, the 27th March, 1981

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 28th March, 1981 a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Saran Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of Saran in the State of Bihar.

[No. F. 1-3/81-RRB(I)]

का. आ. 238(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से परामर्श करके, छपरा को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-3/81-आर. आर. बी. (1)]

S.O. 238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, by which Saran Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Chapra as the place where Saran Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-3/81-RRB(II)]

का. आ. 239(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ. 1-3/81-आर. आर. बी. (3)]

दत्तदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 239(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Saran Kshetriya Gramin Bank, Chapra being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-3/81-RRB(III)]
BALDEV SINGH, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष

अभिसूचना

बम्बई, 28 मार्च, 1981

का. आ. 240(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता

हे कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :—

‘सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार)’

[आर. पी. सी. सो. संख्या 213/आई एन सी एल./311-81]

एम. वी. हाटे, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
RURAL PLANNING AND CREDIT CELL
NOTIFICATION

Bombay, the 28th March, 1981

S.O. 240(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Saran Kshetriya Gramin Bank, Chapra (Bihar)”.

[RPCC. No. 213/INCI/311-81]
M. V. HATE, Executive Director